

Date: 4.2.2022

Publication: Navbharattimes.indiatimes.com

Headline: Motor Insurance – No claim bonus doesn't lapse for up to 3 years, know under what circumstances

Motor Insurance: नो क्लेम बोनस तीन साल तक लैप्स नहीं होता, जानिए किस परिस्थिति में

Curated by शिशिर चौरसिया | Navbharat Times | Updated: 4 Feb 2022, 6:35 am

मोटर वाहन (Motor Vehicle) की सुरक्षा में एक विस्तृत मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) अच्छा टूल माना जाता है। यह हमें थर्ड पार्टी की लायबिलिटी (Third Party Liability) के खिलाफ भी कवरेज प्रदान करता है। मोटर इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस (No Claim Bonus) एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यह रिन्यूवल के वक्त आपके मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम (Motor Insurance Premium) को कम करने में मदद कर सकता है।



इंश्योरेंस कम्पनी (General Insurance Companies) आपको प्रत्येक क्लेम फ्री वर्ष (Claim Free Year) के लिए नो क्लेम बोनस (NCB) प्रदान करती है। एनसीबी छूट स्लैब के अनुसार दी जाती है। यह पहले दावा-मुक्त वर्ष के लिए 20% से शुरू होता है और धीरे-धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लगातार दावा-मुक्त वर्षों के लिए क्रमशः 25%, 35%, 45% और 50% तक पहुंच जाता है। यह छूट अधिकतम 50% तक होती है। **बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर आदित्य शर्मा** हमें बता रहे हैं एनसीबी और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में।

केवल ओन डैमेज (OD) प्रीमियम पर ही लागू

एनसीबी केवल ओन डैमेज प्रीमियम (OD Premium) पर लागू होता है न कि थर्ड-पार्टी प्रीमियम (Third Party Premium) पर। आपको एक उदाहरण देने के लिए, मान लीजिए कि आपकी कार के इंश्योरेंस का संपूर्ण प्रीमियम 3,000 रुपये है और इसका 20% टीपी प्रीमियम है। यह आपके संपूर्ण प्रीमियम में महज 600 रुपये है। अतः नो क्लेम बोनस छूट 2,400 रुपये के ओडी प्रीमियम पर लागू होगी।

नो क्लेम बोनस ड्राइवर को

नो क्लेम बोनस अच्छे ड्राइविंग व्यवहार के लिए दिया जाने वाला एक इनाम है। इसका मतलब है कि जब आप अपना वाहन बदलते हैं या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो आप आसानी से अपना

एनसीबी ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही, आप कुछ मामूली नुकसान के लिए दावा करने से बचकर अपने नो क्लेम बोनस को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। दावा फाइल करने से पहले लागत बनाम लाभ (cost vs benefit) विश्लेषण करना स्मार्ट काम है। एक उदाहरण देने के लिए, मान लीजिए कि आप अगले वर्ष 6,000 रुपये की एनसीबी छूट के लिए पात्र हैं और आपको मामूली नुकसान का सामना करना पड़ता है और मरम्मत की लागत 3,000 रुपये है। यदि आप इस मरम्मत के लिए दावा करते हैं, जिसकी लागत 3,000 है, तो आप 6,000 रुपये के नो क्लेम बोनस का दावा करने का अधिकार खो देंगे और 3,000 का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसा विश्लेषण आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि आपको दावा दायर करना चाहिए या नहीं।

एनसीबी ट्रांसफर की प्रक्रिया

एनसीबी ट्रांसफर काफी सरल प्रक्रिया है। ऑफ़लाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने इंश्योरेंस कर्ता से संपर्क कर सकते हैं और उनसे एनसीबी हस्तांतरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है, उसे जमा कर सकते हैं। इंश्योरेंस कर्ता आपका एनसीबी प्रमाणपत्र जारी करेगा। आपको नए इंश्योरेंस कंपनी को प्रमाणपत्र जमा करना होगा और वे एनसीबी को ट्रांसफर कर देंगे। यदि आप कवर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उस स्थिति में आपको नए इंश्योरेंस कंपनी को सही एनसीबी, पिछली पॉलिसी संख्या और पिछले इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सूचित करना होगा। नया इंश्योरेंस कर्ता एनसीबी को स्थानांतरित करेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध होता है। इसलिए यदि आप कुछ वर्षों के लिए विदेश जा रहे हैं या कुछ समय के लिए ऑफ-रोड जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप उक्त वर्षों के लिए एनसीबी की वैधता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं।

नो क्लेम बोनस को नई कार में कैसे ट्रांसफर करें?

एनसीबी को नई कार में ट्रांसफर करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप पुरानी कार के मालिक नहीं हैं तब तक आप छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आप अपनी पुरानी कार को बेच सकते हैं, एनसीबी को अपने पास रख सकते हैं और इसे अपनी नई कार में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि आप अपनी पुरानी कार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पुराने वाहन का मालिकाना हक अपने परिवार के सदस्य को हस्तांतरित कर सकते हैं।

एनसीबी की समाप्ति

नो क्लेम बोनस या एनसीबी (No Claim Bonus) निम्नलिखित दो परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा:-

- जब आप क्लेम फाइल (Filing of Claim) करते हैं
- यदि आप अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी (Motor Insurance Policy) की समाप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर रिन्यू (Renewal of Policy) नहीं करते हैं

एनसीबी प्रोटेक्शन ऐड ऑन

अब जब आप प्रीमियम को कम करने में एनसीबी के महत्व को जान लेते हैं, तो सुझाव है कि आप एक एनसीबी प्रोटेक्शन ऐड खरीदने पर विचार करें। यह आपके एनसीबी को सक्रिय रखने में आपकी मदद करेगा, भले ही आपको क्लेम फाइल करना पड़ जाए। आप चाहें तो कितने क्लेम्स फाइल कर सकते हैं, और फिर भी एनसीबी को बरकरार रख सकते हैं। यह हर इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर एक पॉलिसी वर्ष में दो क्लेम्स की अनुमति दी जाती है।